

Ex-SA Prez Zuma linked to new bribe scandal

NEKULEKO NCANA, PAUL VECCHIATTO AND MIKE COHEN
Johannesburg, January 28

JACOB ZUMA, WHO quit as South African president last year after being implicated in a string of scandals, is facing fresh allegations that he took bribes from services company Bosasa to shield it from prosecution and advance its business interests.

Angelo Agrizzi, Bosasa's chief operating officer from 1999 to 2016, told a judicial inquiry that's probing graft during Zuma's rule the company agreed to pay 300,000 rand (\$22,000) a month to his charitable foundation in return for protection from prosecution.

Bosasa Chief Executive Officer Gavin Watson gave the money to Dudu Myeni, the foundation's chairwoman, according to Agrizzi. The former COO said he counted the cash and was present when several payments were made. "Surely if it's for a foundation you would do an electronic funds transfer? Why would you want it in cash?" Agrizzi said. "I don't think the foundation got anything."

Zuma, 76, is already on trial for taking bribes from arms dealers in the late 1990s and has been accused of allowing members of the Gupta family, who were in business with his son, to influence government contracts and cabinet appointments.

Besides Zuma, a number of senior ruling African National Congress officials have been

implicated in taking bribes, which could further damage its reputation ahead of elections in May. The ANC, now headed by President Cyril Ramaphosa, has said individuals who engaged in wrongdoing acted in their personal capacity and has called on them to testify.

Bosasa, now named African Global Operations, made headlines late last year when it emerged that it had donated 500,000 rand to Ramaphosa's foundation, according to Agrizzi. The former COO said he counted the cash and was present when several payments were made. "Surely if it's for a foundation you would do an electronic funds transfer? Why would you want it in cash?" Agrizzi said. "I don't think the foundation got anything."

Zuma, 76, is already on trial for taking bribes from arms dealers in the late 1990s and has been accused of allowing members of the Gupta family, who were in business with his son, to influence government contracts and cabinet appointments.

Besides Zuma, a number of senior ruling African National Congress officials have been

GOVERNMENT OF TAMIL NADU
Project Development Grant Fund (PDGF)
INVITATION FOR PROPOSALS (IFP)
Consulting services Ref: DIPRI/PDGF/CBE Solar/Jan/2019
providing consulting services to Coimbatore City Municipal Corporation as under

Description of Services	EMD	Pre-bid meeting	Bid Submission last date	Bid Opening
Consulting Services for Preparation of Feasibility Report and Bid Documents for Establishing a Ground Mounted Grid Tied 2-MV Solar PV Power Plant for the proposed Sewage Treatment Plant in Vellore for Coimbatore City Municipal Corporation	Rs.20,000/-	04.02.2019 @ 3.00 pm	13.02.2019 upto 3.00 pm	13.02.2019 at 3.30 pm

1. The above assignment is open to all eligible consulting firms. Request for Proposals (RFP) may be downloaded and used free of cost from the websites viz. www.tenders.tn.gov.in and www.tnufsl.com.

2. Pre-qualification, Technical and Financial proposals under the "three cover system" must be delivered in the office of TNUFSL, 19, T.P. Scheme Road, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600028 on or before date mentioned in above table and Pre-qualification cover-1 alone will be opened on the same day, in the presence of the consultancy firms who wish to attend. If the office happens to be closed on the date of receipt of the proposals as specified, the proposals will be received and opened on the next working day at the same time and venue.

3. A pre-bid meeting will be held in the office of TNUFSL, to clarify queries if any as stated in the RFP.

4. Any Changes / Clarifications, Minutes of Pre-bid meeting and Addendum & Corrigendum issued will be uploaded only in the above websites. No new advertisement will be published in the Newspapers for extensions and addendums (if any).

Principal Secretary / Managing Director
TNUFSL
DIPRI/545/Tender/2019
Fund Manager of PDGF

TRC FINANCIAL SERVICES LIMITED
CIN: L74899MH1976PLC216417
Regd. Off: Bandra Hill View CHS, 3rd Floor, Hill Road, Opp. Yoko Sizzlers, Bandra W, Mumbai - 400 050
www.trcfins.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 5th February, 2019 at Rockline Center, 54 Richmond Road, Bangalore 560025 at 12:00 Noon, inter alia, to consider and approve unaudited financial results of the Company for the quarter and Nine Months ended December 31, 2018.

The said notice may be accessed on the Company's website at <http://trcfins.com> and may also be accessed on the Stock Exchange website at <http://www.bseindia.com>

For and on behalf of
TRC FINANCIAL SERVICES LIMITED
Chirag Ramniklal Meswani
Whole-time Director
DIN: 07987316
Date: 28th January, 2019

TATA POWER
THE TATA POWER COMPANY LIMITED
Registered Office: Bombay House, 24, Homi Modi Street, Mumbai 400 001 Tel: 91 22 6665 8282 Fax: 91 22 6665 8801
Email: tatapower@tatapower.com, Website: www.tatapower.com CIN: L28920MH1919PLC000567

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2018

Sr. No.	Consolidated	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Nine months ended	Nine months ended	Year ended
		31-Dec-18	30-Sep-18	31-Dec-17	31-Dec-18	31-Dec-17	31-Mar-18
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
a.	Total Income from operations	7,706.71	7,318.92	6,360.22	22,328.40	19,623.36	26,840.27
b.	Profit / (Loss) before Exceptional items and tax	116.42	519.75	442.50	1,077.29	1,608.81	1,742.03
c.	Profit / (Loss) before tax	116.42	519.75	448.59	2,974.53	1,466.10	2,844.56
d.	Profit / (Loss) for the period/year	204.61	393.36	628.16	2,333.09	1,246.52	2,610.85
e.	Total Comprehensive Income	(91.06)	804.61	485.08	2,610.25	857.10	2,704.84
f.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value: ₹ 1/- per share)	270.50	270.50	270.50	270.50	270.50	270.50
g.	Total Reserves						14,629.38
h.	Earnings Per Equity Share (of ₹ 1/- each) (not annualised) Basic and Diluted: (In ₹)						
	(i) From Continuing Operations before net movement in regulatory deferral balances	0.82	1.50	1.67	8.93	4.56	9.74
	(ii) From Continuing Operations after net movement in regulatory deferral balances	0.49	1.26	2.02	7.94	3.67	8.75
	(iii) From Discontinued Operations	(0.12)	(0.13)	0.07	(0.37)	0.16	(0.26)
	(iv) Total operations after net movement in regulatory deferral balances	0.37	1.13	2.09	7.57	3.83	8.49

* Restated

Notes:
1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 28th January, 2019.
2. Financial information of the standalone financial results of the Company is as follows:

Sr. No.	Standalone	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Nine months ended	Nine months ended	Year ended
		31-Dec-18	30-Sep-18	31-Dec-17	31-Dec-18	31-Dec-17	31-Mar-18
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
a.	Total Income from operations	1,998.90	1,818.41	1,563.37	5,763.00	5,694.99	7,536.59
b.	Profit / (Loss) before Exceptional items and tax	73.86	319.22	274.09	666.86	856.34	1,192.80
c.	Profit / (Loss) before tax	255.57	265.36	519.29	1,654.72	788.58	3,150.52
d.	Total Comprehensive Income	252.24	266.01	515.17	1,638.87	495.56	3,105.58
e.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value: ₹ 1/- per share)	270.50	270.50	270.50	270.50	270.50	270.50
f.	Total Reserves						12,718.03
g.	Earnings Per Equity Share (of ₹ 1/- each) (not annualised) Basic and Diluted: (In ₹)						
	(i) From Continuing Operations before net movement in regulatory deferral balances	1.44	0.75	2.04	6.64	3.00	(11.21)
	(ii) From Continuing Operations after net movement in regulatory deferral balances	0.96	1.00	1.75	6.17	2.45	(11.79)
	(iii) From Discontinued Operations	(0.12)	(0.12)	0.06	(0.37)	0.15	(0.26)
	(iv) Total operations after net movement in regulatory deferral balances	0.84	0.88	1.81	5.80	2.60	(12.05)

* Restated

3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.tatapower.com.

For and on behalf of the Board of
THE TATA POWER COMPANY LIMITED
Date: 28th January, 2019
Place: Mumbai
PRAVEER SINHA
CEO & Managing Director

SALE NOTICE
CONROS STEELS PRIVATE LIMITED
(In Liquidation)
Regd. Off.: 44A Dheeraj Heritage, Second Floor, S V Road, Santacruz (W) Mumbai Maharashtra- 400054
Liquidator: Santanu T. Ray
Liquidator's Address: 1343, Regus, Level 13, Platinum Techno Park, Plot no 17-18, Sector 30A, Vashi, Navi Mumbai-400705
Maharashtra, Email ID: conros.steels@aaainsolvency.com; santanu@aaainsolvency.com |
Contact No.: (011) 46664600 Mobile No.: +91 9999995139 (Mr. Puneet Sachdeva)
E-Auction
Sale of Assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
Date and Time of E-Auction: 08th February, 2019 at 03:00 PM to 05:00 PM IST
(with unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Assets and Properties owned by **Conros Steels Private Limited (In Liquidation)** forming part of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide order dated 21st August 2018. The Sale will be done by the undersigned through the E-Auction platform <https://aaa.auctiontiger.net>

Asset	Block	Reserve Price	EMD Amount
Unit-1: Land and Building situated at Plot bearing Survey No. 12,26,27,28 and 29, Village Vanavathe, Ajwali Phata, Khopoli-Pen Road, Khalapur, Raigad 410 203	Block 1	16.9 Cr	1.69 Cr
Unit-1 Plant & Machinery installed at Plot bearing Survey No. 12,26,27,28 and 29, Village Vanavathe, Ajwali Phata, Khopoli-Pen Road, Khalapur, Raigad 410 203	Block 2	3.34 Cr	33.4 Lakh
Unit 1: Land, Building and Plant & Machinery at Plot bearing Survey No. 12,26,27,28 and 29, Village Vanavathe, Ajwali Phata, Khopoli-Pen Road, Khalapur, Raigad 410 203	Block 3	20.21 Cr.	2.0 Cr
Unit 2: Office Premise situated at Nos. 42, 43, 44 & 44A, 2nd Floor, A Wing, Sale Building no. 2A1, Dheeraj Heritage, Daulat Nagar, S.V. Road, Santacruz (W), Mumbai 400 054.	Block 4	3.14 Cr.	31.4 Lakh

Terms and Condition of the E-Auction are as under:
1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider, M/s. E-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger).
2. This Sale Notice shall be read in conjunction with the Complete E-Auction Process Document containing details of the Assets, online E-Auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of the E-Auction Sale which are available on the website: <https://aaa.auctiontiger.net> and www.insolvencyandbankruptcy.in. Contact: Mr. Kushal Kothari at +91 8980690773; +91 6351896834; 0799 68135416/417; Email ID: kushal@auctiontiger.net; support@aaa.auctiontiger.net. (On visiting <https://aaa.auctiontiger.net> interested bidders will have to search for the Company by using either of the two options: (i) Company's Name (Conros Steels Private Limited), or (ii) State and Property)
3. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries regarding the title of properties, local tax dues, electricity and water charges, maintenance charges, if any and inspect the properties at their own expenses and satisfy themselves. The properties mentioned above can be inspected by the prospective bidder at the site with prior appointment, by contacting Mr. Puneet Sachdeva: +91 9999995139.
4. The intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposit (EMD) amount either through NEFT/RTGS in the Account of "CONROS STEELS PRIVATE LIMITED IN LIQUIDATION", Account No.: 50200034460444, HDFC Bank, Branch: Plot No. 82, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai-400703, IFSC Code: HDFC0000540, or through DD drawn on any Scheduled Bank in the name of CONROS STEELS PRIVATE LIMITED IN LIQUIDATION.
5. The intending bidders should submit the evidence for EMD Deposit and Request Letter for participation in the E-Auction along with self-attested copy of (1) Proof of Identity, (2) Current Address Proof, (3) PAN Card; (4) Valid e-mail ID; (5) Landline and Mobile Number; (6) Affidavit and Undertaking, as per Annexure I; (7) Bid Application Form as per Annexure II; (8) Declaration by Bidder as per Annexure III. The formats of these Annexures can be taken from the Complete E-Auction Process Document. These documents should reach the office of the Liquidator physically or by email, at the address given below before 05:00 PM on 04th February, 2019. Interested bidders will also have to upload their KYC documents along with the EMD submission details on <https://aaa.auctiontiger.net> before 05:00 PM on 04th February, 2019.
6. The Names of the Eligible Bidders will be identified by the Liquidator to participate in the E-Auction on the portal <https://aaa.auctiontiger.net>. The E-Auction Service Provider (Auction Tiger) will provide User ID and Password by email to the Eligible Bidders.
7. The Eligible Bidders, participating in the E-Auction, will have to Bid for the Reserve Price and increase their bid by a minimum incremental amount of Rs.05Lakh for Block 1, Rs. 05 Lakh for Block 2, Rs. 05 Lakh for Block 3 and Rs. 3Lakh for Block 4.
8. In case a bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the E-Auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes with unlimited extension. The bidder who submits the highest bid amount (not below the Reserve Price) on the closure of E-Auction shall be declared as the Successful Bidder and a communication to that effect will be issued through electronic mode by the E-Auction Service Provider, which shall be subject to approval by the Liquidator.
9. The EMD of the Successful Bidder shall be retained towards part of the sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The EMD shall not bear any interest. The Liquidator will issue a Letter of Intent (LOI) to the Successful Bidder and the Successful Bidder shall have to deposit the balance amount (Successful Bid Amount minus EMD Amount) within 10 days of issuance of the LOI by the Liquidator. Default in depositing the balance amount by the Successful Bidder within the time limit as mentioned in the LOI would entail forfeiture of the entire amount deposited (EMD plus Any Other Amount) by the Successful Bidder.
10. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties/transfer charges, fees etc. and all the statutory / non-statutory dues, taxes, rates, assessment charges, fees etc. in respect of the properties put on E-Auction.
11. After payment of the entire sale consideration, the Sale Certificate/Agreement will be issued in the name of the Successful Bidder only and will not be issued in any other name.
12. The Liquidator has absolute right to accept or reject any or all bids or adjourn/postpone/cancel the E-Auction or withdraw any property or portion thereof from the E-Auction at any stage without assigning any reason therefor.
13. The Sale shall be subject to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Regulations made thereunder.

Santanu T. Ray
Liquidator
Conros Steels Private Limited
IBBI Regn. No.: IBBI/PA-002/IP-N00360/2017-2018/11055
Address: 1343, Regus, Level 13, Platinum, Techno Park, Plot no 17-18, Sector 30A, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra, 400705.
Email ID: santanu@aaainsolvency.com; conros.steels@aaainsolvency.com
Contact No.: 01146664600; +919999995139 (Mr. Puneet Sachdeva)

IR Ingersoll Rand
INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED
CIN : L05190KA1921PLC036321
Regd Office : 8th Floor, Tower D, IBC Knowledge Park, No. 4/1, Bannerghatta Main Road, Bengaluru - 560 029

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of Ingersoll-Rand (India) Limited will be held on Friday, February 8, 2019, inter alia, to take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2018.

For INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED
P. R. SHUBHAKAR
General Manager- Corp. Finance and Company Secretary
Bengaluru : January 28, 2019

Notice

NOTICE pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, February 5, 2019, inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results (both standalone and consolidated) for the third quarter ended December 31, 2018 for the Financial Year 2018-19.

This intimation is also available on the website of the Company, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.nifra.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Date : January 28, 2019
Place : Mumbai
For Reliance Infrastructure Limited
Srilatha T G
Dy. Company Secretary
Reliance Infrastructure Limited
CIN: L75100MH1929PLC001530
Regd Office: H Block, 1st Floor, Dhruvul Ambani Knowledge City, Navi Mumbai 400 710
Tel: +91 22 3303 1000, Fax: +91 22 3303 3664
E-mail : nifra.investor@relianceco.com
Website : www.nifra.com

RELIANCE
Infrastructure

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
NOTICE

Notice is hereby given pursuant to the relevant provisions of Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015 that a meeting of the Board of Directors of Steel Authority of India Limited will be held on 7th February, 2019 at New Delhi, to inter-alia, consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December, 2018.

Notice is also given that the Trading Window for dealing in Securities of Steel Authority of India Limited would remain closed from 30th January, 2019 to 10th February, 2019 (both days inclusive) for all connected persons.

The Notice is also available on the website of the Company <http://www.sail.co.in> and that of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

Dated: 28th January, 2019
New Delhi.

By order of the Board
For Steel Authority of India Limited
Sd/-
(M.C. Jain)
ED (F&A) & Secretary

Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003
Corporate Identity Number : L27109DL1973GOI006454, Website: www.sail.co.in
There's a little bit of SAIL in everybody's life

VAIBHAV GLOBAL LIMITED
Regd. Off. : K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur-302004;
Tel: 91-141-2601020; Fax: 91-141-2605077; CIN : L36911RJ1989PLC004945;
E-Mail: investor_relations@vaibhavglobal.com; Website : www.vaibhavglobal.com

Extract of consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2018
(₹ In Lacs, unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	Consolidated		
		Quarter Ended	Quarter Ended	Nine Months Ended
		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations (Net)	51,059.07	46,163.04	135,244.77
2	Total Income	312.39	200.94	907.17
3	Total Income	51,371.46	46,363.98	136,151.94
4	Net Profit from Ordinary Activities (before tax and exceptional items)	6,446.42	5,520.17	14,888.54
5	Net Profit from Ordinary Activities before tax (after exceptional items)	6,446.42	5,520.17	14,888.54
6	Net Profit from Ordinary Activities after tax (after exceptional items)	5,251.38	4,553.13	12,171.53
7	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	4,514.28	3,947.01	12,666.85
8	Equity Share Capital	3,263.93	3,257.36	3,263.93
9	Earnings Per Share (of ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations)			
	i) Basic EPS	16.11	13.99	37.33
	ii) Diluted EPS	15.58	13.58	36.10

Notes:

- The above unaudited consolidated financial results for the quarter and year to date for the period from 1st April, 2018 to 31st December, 2018 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 28th January, 2019.
- These unaudited financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015.
- Current tax includes minimum alternate tax (MAT) and deferred tax includes MAT credit entitlement.
- The unaudited consolidated financial results include the financial results of the parent company Vaibhav Global Limited 'the group' and the financial results of the following subsidiaries and step down subsidiaries:
Subsidiaries:
 - STJ Jewels Inc., USA
 - STJ Gems Thai Limited, Thailand
 - STJ Gems Limited, Hongkong
 - STJ Gems Jewelers Limited, BVI
 - STJ Gems Jewelers Limited, BVI**"Step down subsidiaries:"**
 - Pt. STJ Bali
 - Shop LC Global Inc., USA (previously known as The Jewelry Channel Inc. USA)
 - The Jewellery Channel limited, UK
 - Jewel Gems USA Inc (merged with The Jewelry Channel Inc. USA, w.e.f.28th February, 2018)
 - STJ (Guangzhou) Trading Limited Company, China
- During the quarter, the Company allotted 30,832 Equity Shares of Rs. 10 each under the Company's Employees Stock Option Scheme-2006 (As Amended) at exercise price ranging between ₹ 284.45 - ₹ 544.15
- Effective 1st April, 2018, the Company adopted Ind AS 115 "Revenue from Contracts with Customers" retrospectively to each prior reporting quarter presented, in accordance with Ind AS 8, Accounting Policies, Change in Accounting Estimates and Errors. Accordingly, the comparatives have been retrospectively adjusted. The effect on adoption of Ind AS 115 was insignificant on the financial results.
- Effective 1st April, 2018, the Company adopted Appendix B "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration" of Ind AS 21 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" using the cumulative catch-up transition method which is applied to Non-monetary assets or Non-monetary liabilities, arising from advance consideration and outstanding on the beginning of the reporting period. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted. The effect on adoption of Appendix B "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration" was insignificant on the financial results.
- Unaudited financial results of Vaibhav Global Limited (Standalone) :-

Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Nine Months Ended
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total Income	12,843.34	13,442.12	35,962.96
Profit before tax	908.00	1,153.39	2,842.08
Net profit after tax	745.64	1,058.34	2,322.45
Total comprehensive income	1,637.56	1,049.57	2,128.40

9 The Group operates in single business segment viz. manufacturing, sourcing and sales of Fashion Jewelry & Life Style Products. Hence no business segment results are being published.

10 Above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the stock exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.vaibhavglobal.com

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sunil Agrawal
Chairman & Managing Director
DIN: 00061142

Place : Jaipur
Date : 28th January, 2019

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office: Vidyalay Bhawan, Block-DL, Sector-8, Bidhannagar, Kolkata - 700 091
CIN: U40199WB000750C13473, cecorp@wbseidcl.com, www.wbseidcl.in

Request for Proposals

e-Tender cum e-Reverse Auction no. WBSEIDCL/PT&P/e-NIT/01(RPO)/2019 dated 29.01.2019 is invited by the Chief Engineer (P&P), WBSEIDCL, Vidyalay Bhawan, Bidhannagar, Kolkata - 700091, for purchase of power from renewable/co-generation sources (non solar) for meeting RPO from 10th February, 2019 to 30th March, 2019 and from 01st April to 31st October (i.e. Seven months) and from 1st April to 30th March every year for the Financial Years 2019-20 & 2020-21 through Traders/Licensees/Bidders. Interested parties may download the tender documents from the website <https://www.mstccommerce.com> directly with the help of Digital Signature Certificate from 11:00 hrs. of 29.01.2019 and submit the same on or before 17:00 hrs. of 04.02.2019. Details will be available on the Company's website: www.wbseidcl.in JCA-TB33(4)/2019

Quick Heal
Security Simplified
QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED
CIN - L72200MH1995PLC091408
Regd Office: Marvel Edge, Office No.

